



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 302]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 30, 2014/कार्तिक 8, 1936

No. 302]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 30, 2014/KARTIKA 8, 1936

भारतीय विधिज्ञ परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2014.

17 अक्टूबर, 2014 को आयोजित सामान्य परिषद् की बैठक के कार्यवृत्त के अंश  
परिषद् ने नियम-1 और नियम-2 में संशोधन करने के लिए उप-समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार किया और विचार के  
बाद परिषद् ने निम्नलिखित संकल्प पारित किया—

संकल्प संख्या 170/2014

यह संकल्प पारित किया कि भारतीय विधिज्ञ परिषद् की मतदाता सूची तैयार करने, सदस्यता से अयोग्य घोषित करने और पद  
रिक्त नियमों से संबंधित भाग-III के अध्याय 1 में निहित नियम 1 और 2 में निम्नलिखित संशोधन किए जा ए:

- नियम 1 में "प्रत्येक अधिवक्ता, जिसका नाम राज्य विधिज्ञ परिषद् की मतदाता सूची" में शब्दों के पश्चात् और "चुनाव में  
मतदान करने का हकदार होगा।" शब्दों से पूर्व निम्नलिखित शब्दों को जोड़ा जाए :

"टिकट आकार के फोटोग्राफ के साथ है,"

संशोधन के पश्चात्, नियम 1 इस प्रकार पढ़ा जाए :

"प्रत्येक अधिवक्ता, जिसका नाम राज्य विधिज्ञ परिषद् की मतदाता सूची में टिकट आकार के फोटोग्राफ के साथ है, चुनाव में  
मतदान करने का हकदार होगा।"

- नियम 2 में खंड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा :—

(ज) वकालत करने का भारतीय विधिज्ञ परिषद् का प्रमाण-पत्र और नवीकरण नियम, 2014 के नियम 20.4 के अधीन प्रकाशित  
की गई वकालत नहीं करने वाले अधिवक्ताओं की सूची में शामिल किया गया है।

**स्पष्टीकरण :** ये संशोधन केवल उन मामलों में लागू होंगे जहां वकालत करने का भारतीय विधिज्ञ परिषद् का प्रमाण पत्र और  
नवीकरण नियम, 2014 लागू होंगे।

जे. आर. शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./96/14]

**BAR COUNCIL OF INDIA****NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th October, 2014

**Extracts of the minutes of the meeting of General Council of Bar Council of India held on  
17th October, 2014**

The Council considered the suggestions made by the Sub-Committee to amendment in Rule 1 and Rule 2 and after consideration, the Council passed the following resolution :-

**Resolution No. 170/2014**

RESOLVED that the following amendments be made in Rule 1 and 2 contained in Chapter I of Part-III of the Bar Council of India Rules respect to preparation of electoral roll, disqualification of membership and vacation of office :

1. In Rule 1 after words “every advocate whose name” and before words “is on the electoral roll of the State Council shall be entitled to vote at an election.” the following words be added :

“with stamp size photographs”.

After amendment, Rule 1 shall read as follows:-

*“1. Every advocate whose name with stamp size photographs is on the electoral roll of the State Bar Council shall be entitled to vote at an election.”*

2. In Rule 2 the following one clause be added after clause (i) :

(j) his name has been included in the list of non-practicing advocates published under Rule 20.4 of the Bar Council of India Certificate of Practice and Renewal Rules, 2014.

**Explanation:** These amendments shall be applicable only in the cases where the Bar Council of India Certificate of Practice and Renewal Rules, 2014 apply.

J. R. SHARMA, Secy.

[ADVT. III/4/Exty./96/14]